



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 40)

पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(सम0)—02—08/2009/1767—श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरुद्ध उक्त प्रमण्डलान्तर्गत वर्ष 2007—08 में प्रथम चरण में संपादित जमींदारी बांधों के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक 314 दिनांक 18.02.10 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न आरोप गठित करते हुए श्री अवधेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 103 दिनांक 28.01.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी:—

- जमींदारी बांध के कार्यान्वयन हेतु दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में प्री लेवल की जाँच कराये बिना ही कार्य कराया गया।
 - बाँध का स्लोप विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया एवं बिना गुण नियंत्रण से जाँच कराये ही कार्यो का भुगतान किया गया है।
 - स्वीकृत प्राक्कलन में जंगल क्लीयरेंस हेतु अनुचित दर का प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप रु0 25361.00 राशि का अनियमित भुगतान के लिए आप दोषी हैं।
 - जाँच पदाधिकारी के द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा जाँच कार्य में सहयोग नहीं किया गया जिसके कारण कार्यो की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी।
- विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के निम्नांकित विन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 619 दिनांक 22.5.14 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी:—

- संचालन पदाधिकारी द्वारा उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन में प्री लेवल की जाँच विभाग द्वारा गठित जाँच दल द्वारा किये जाने का उल्लेख के आधार पर बिना प्री लेवल की जाँच का ही कार्य कराने के आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया है। परन्तु संदर्भित कोई साक्ष्य (जाँचित प्री लेवल बुक) न तो उड़नदस्ता दल एवं न ही आपके द्वारा

उपलब्ध कराया गया है। अतः साक्ष्य विहित तथ्य को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आपके विरुद्ध आरोप सं0-1 प्रमाणित होता है।

2. जमींदारी बांध का कार्य राजस्थानी ट्रेक्टर से कराने, प्राक्कलन में **Compaction** मद का प्रावधान नहीं रहने के कारण मिट्टी गुण नियंत्रण से जाँच का औचित्य नहीं होने तथा उड़नदस्ता द्वारा कराये गये कार्य पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करने मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच नहीं करने एवं पायी गयी भिन्नता मामूली एवं मान्य सीमा के अन्तर्गत माने जाने के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा आपके विरुद्ध आरोप सं0-2 प्रमाणित नहीं माना गया है। परन्तु जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। शाहपुर **P W D Road** से बरहेता धरनी पट्टी तक जमींदारी बांध के प्राक्कलन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस बांध में 10 अदद डबल भेट का पाईप कल्बर्ट का प्रावधान है। उक्त संरचना में कंक्रीटिंग कार्य, ब्री वर्क तथा अन्य पक्का कार्य कराया गया है। उक्त कार्य का भी गुण नियंत्रण जाँच से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए बिना गुण नियंत्रण से जाँच कराये ही भुगतान करने का आरोप प्रमाणित होता है।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिना प्री लेवल जाँच कराये ही जमींदारी बांध में मिट्टी कार्य कराने के संबंध में श्री सिंह द्वारा नया साक्ष्य रूप में संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि विभागीय पत्रांक 2570 दिनांक 5.12.07 के आलोक में मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर ने ज्ञापांक 3092 दिनांक 10.12.07 से परिक्षेत्राधीन जमींदारी बांध से संबंधित प्रमण्डल के अधीन जमींदारी बांध के प्री लेवल की जाँच हेतु प्रमण्डलवार जाँच टीम गठित किया गया है तथा विभागीय पत्रांक 2665 दिनांक 18.12.07 से मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्रावार जमींदारी बांध के प्री लेवल की जाँच हेतु टीम गठित की गयी है तथा मुख्य अभियन्ता को जमींदारी बांधों के प्री लेवल की शत प्रतिशत जाँच असम्बद्ध अभियन्ताओं से कराने का निदेश दिया गया है। श्री सिंह द्वारा प्री लेवल की जाँच से संदर्भित साक्ष्य स्वरूप प्री लेवल बुक की छाया प्रति दी गयी है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हिचौल से अम्माडीह भाया फरगपुर तथा शाहपुर **P W D Road** से बरहेता धरनी पट्टी तक जमींदारी बांधों के प्री लेवल बुक एवं **P W D Road** (दरभंगा-समस्तीपुर) से मखनाही टोला के खरंजा तक तथा **P W D Road** (परोरी-विशनपुर) से हब्बीपुर खरंजा तक जमींदारी बांधों का संबंधित कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा लिए गये प्री लेवल का मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित टीम से शत प्रतिशत जाँच कराया गया है तथा विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा भी प्री लेवल की रेन्डम जाँच की गयी है। अतएव उड़नदस्ता तथा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरुद्ध बिना प्री लेवल की जाँच कराये कार्य कराने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

शाहपुर **P W D Road** से बरहेता धरनी पट्टी तक जमींदारी बांधों में कराये गये संरचना कार्य में बिना गुण नियंत्रण की जाँच कराये भुगतान कराने संबंधी द्वितीय कारण पृच्छा में श्री सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त जमींदारी बांध में छोटे छोटे संरचना रहने के कारण कार्यों का गुण नियंत्रण की जाँच नहीं करायी गयी है। जबकि नियमानुसार गुण नियंत्रण की जाँच कराकर ही भुगतान की कार्रवाई करना है। श्री सिंह द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे प्रमाणित हो सके कि कराये गये संरचनाओं के कार्य के भुगतान से पूर्व गुण नियंत्रण की जाँच करायी गयी है। अतएव श्री सिंह के विरुद्ध बिना गुण नियंत्रण की जाँच कराये ही भुगतान करने का आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरुद्ध आरोप सं0-2 संरचना के कार्यों का भुगतान बिना गुण नियंत्रण जाँच कराये ही करने का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

1. एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

सरकार के निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 40-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>